

REPORT


One Day Workshop on NAAC Accreditation-Paradigms & Concerns

The IQAC of Sidharth Government "Utkrishit" College Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh organized one-day workshop on **NAAC Accreditation-Paradigms & Concerns** on May 20, 2023. Dr. Sangeet K. Pathak, Department of Mathematics, SGTB Khalsa College Anandpur Sahib, Punjab was the resource person for this event. He delivered an invited talk on the topic "**NAAC Accreditation-Paradigms & Concerns**". This workshop was organised under IQAC. The workshop was held in two technical sessions. The first session began with the inaugural address of the Principal, followed by the talk of the resource person wherein he discussed all the indicators and latest paradigms about the process of NAAC Accreditation. His main thrust was on the validation of documentation process. The post tea session was an interactive session wherein the conveners of all seven criterion and faculty members discussed the problems and the concerns involved therein. The workshop was quite fruitful and ended with a vote of thanks by the IQAC Convener Dr. Yudhvir Singh. This seminar was organised under the able guidance of Principal Dr. Anil Kumar Gautam (Principal Sidharth Government "Utkrishit" College Nadaun), Coordinator NAAC Prof. Reeta Sharma, Convener IQAC Dr. Y. S. Patyal, Member Secretary IQAC Prof. B. K. Juneja, Organizing Secretary Dr. Reetika Jamwal & Dr. Sunil Kumar Sharma Press Secretary Mr. Yogesh Kumar & Dr. Naveen Sharma.




Group Photograph during the Workshop on NAAC

A. Gautam
Principal
Sidharth Govt. College Nadaun
Distt. Hamirpur (HP) 177033



Inaugural Address by Dr. Anil Kumar Gautam ,Principal Sidharth Govt. College Nadaun,
 Dist. Hamirpur, H.P.



Invited Talk by Dr. Sangeet K. Pathak, Department of Mathematics, SGTB Khalsa College
 Anandpur Sahib, Punjab.

Principal
 Sidharth Govt. College Nadaun
 Distt. Hamirpur (HP) 177033

Presenting Memento to the Resource person



NEWSPAPER COVERAGE

MON 22 MAY 2023
EDITION: HAMIRPUR KESARI, PAGE NO: 2

नादौन में नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार पर लगाई कार्यशाला



नादौन - सिद्धांची राजकीय जलकुस महाविद्यालय नादौन में नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार पर एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित प्राध्यापी।

नादौन, 21 मई : जिला सिद्धांची राजकीय जलकुस महाविद्यालय नादौन में आई क्यू ए सी के विलासपान में नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार पर एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। डॉ. सतीश क. पांडेय का संचालन में आयोजित कार्यशाला में जलकुस महाविद्यालय के मुख्यालय के शिक्षक-प्रधान और सरोकार विषय पर एक अग्रणी जलकुस प्रशिक्षण दिनांक 40 प्रतिभागीयों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यशाला दो घण्टों में हुई।

पहला सत्र प्रधानाचार्य के अध्यक्षता में शुरू हुआ। उनका संबोधन में सभाग के सदस्यों ने नैक प्रत्यायन की प्रक्रिया के बारे में सलाह देकर सरोकार और नैक प्रत्यायन प्रतिमान पर चर्चा की। उनका मुख्य बल प्रत्यायन पर सरोकार और सरोकार पर चर्चा की। डॉ. सतीश क. पांडेय ने नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार के बारे में सलाह देकर सभाग के सदस्यों को सलाह दी। डॉ. सतीश क. पांडेय ने नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार के बारे में सलाह देकर सभाग के सदस्यों को सलाह दी। डॉ. सतीश क. पांडेय ने नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार के बारे में सलाह देकर सभाग के सदस्यों को सलाह दी।

नैक प्रत्यायन की प्रक्रिया के संकेतकों पर की चर्चा

नादौन (हरमोपुर) : सिद्धांची राजकीय जलकुस महाविद्यालय नादौन में आयोजित की गई कार्यशाला में नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला में नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार के संकेतकों पर चर्चा की गई। डॉ. सतीश क. पांडेय ने नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार के बारे में सलाह देकर सभाग के सदस्यों को सलाह दी। डॉ. सतीश क. पांडेय ने नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार के बारे में सलाह देकर सभाग के सदस्यों को सलाह दी। डॉ. सतीश क. पांडेय ने नैक प्रत्यायन प्रतिमान और सरोकार के बारे में सलाह देकर सभाग के सदस्यों को सलाह दी।

A. Watawa
Distt. Hamirpur (HP) 177033